



चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Department of Medical, Health & Family Welfare

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan



सत्यमेव जयते

Helpline Number
for corona-virus

Rajasthan
0141-
2225624/2225000
Toll Free No:
104/108

National Call Center
No
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075

Whatsapp Chatbot
+911412225624

Helpline Email ID
for corona-virus :
rajasthan_idsp[at]
yahoo[dot]co[dot]in

COVID Facilities in
Rajasthan
(27.06.20)

Frequently Asked
Questions on
(FAQs)

Mobile Application
RSMP



RSMP मोबाईल ऐप डाउनलोड
करने के लिए Q.R.Code Scan
करें।



Rajasthan Teleconsultation
Services

[Click Here for Main Website](#)

Novel Corona Virus (COVID-19)

Home	Travel Advisories	Behavioural Health	Citizens	Hospitals	States/Departments/ Ministries	Employees	Awareness Material
------	-------------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------

3219068
Total Sample
Collected

3071195
Negative
Cases

146195
Positive
Cases

123421
Cured /
Recovered

1678
Report
Awaited

1559
Cumulative
Death



श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान



डॉ. रघु शर्मा
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थान



डॉ. सुभाष गर्ग
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री,
राजस्थान

District Wise Status of COVID-19 Date-05.10.2020 (Time 6:00 P.M.)						
S.No	District	Total Sample Received	Today's Positive	Cumulative Positive	Cumulative Recovered	Cumulative Discharged
1	AJMER	143889	112	7403	6963	6963
2	ALWAR	144527	190	11602	11073	11073
3	BANSWARA	26459	14	1284	1149	1149
4	BARAN	31024	11	1338	1221	1221
5	BARMER	67224	31	2877	2696	2696
6	BHARATPUR	87899	42	4551	4265	4265
7	BHILWARA	98971	109	4752	4380	3360
8	BIKANER	176317	273	7555	6682	6682
9	BUNDI	25897	10	1267	1163	1163
10	CHITTORGARH	49892	24	1839	1623	1623
11	CHURU	72350	35	2014	1798	1798
12	DAUSA	33733	10	1156	1020	1020
13	DHOLPUR	91741	40	3066	2912	2912
14	DUNGARPUR	81309	24	2002	1780	1780
15	GANGANAGAR	29843	30	1776	1455	1455
16	HANUMANGARH	32971	17	1055	841	841
17	JAIPUR	408807	450	23629	14580	14580

18	JAISALMER	50474	13	924	757	757
19	JALORE	101947	49	2655	2363	2363
20	JHALAWAR	62416	12	2465	2367	2367
21	JHUNJHUNU	65683	34	1929	1644	1644
22	JODHPUR	405004	365	21880	16870	16870
23	KARAULI	33536	18	978	802	802
24	KOTA	199283	25	9293	8376	8376
25	NAGPUR	118141	22	3830	3632	3632
26	PALI	120424	46	6116	5780	5780
27	PRATAPGARH	25250	10	838	741	741
28	RAJSAMAND	53741	27	2009	1787	1787
29	S.MADHOPUR	48809	10	948	825	825
30	SIKAR	96370	13	4320	3977	3977
31	SIROHI	52166	24	2129	1931	1931
32	TONK	33467	28	1405	1175	1175
33	UDAIPUR	143492	47	4973	4495	4495
Other State/country		6012	0	189	150	120
Total		3219068	2165	146047	123273	122223
Other (Italy)		0	2	2	2	2
Evacuees		0	61	61	61	61
BSF		0	85	85	85	85
G Total			2165	146195	123421	122371

COVID Facilities in Rajasthan

LATEST UPDATES

प्रेस-विज्ञप्ति

(Only for Private Sector)

1.(Only for Private Sector) Details of Manpower willing to work for COVID-19 patient

2. (Only for Private Sector) Details of hospital voluntarily agreeing to provide services for the treatment of COVID-19 patient

कोरोना वायरस (Corona Virus Important Letter for Department)

State Officials/incharge for COVID 19

District Officials/ incharge for 19Corona

MoHFW Website

राजस्थान - सारक है

झूठ शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किरी के संचरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

सच शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किरी के संचरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

COVID - 19 राजस्थान - सारक है

झूठ नया कोरोना वायरस कुत्तों या बच्चों को स्पर्शित करना है, घुसने से नहीं।

सच सभी उम्र के लोग इस वायरस (nCoV-2019) से संक्रमित हो सकते हैं। घुसने और पहले से कमजोर रहने (जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, दिल के मरीज) वाले संक्रमण से जल्द बस हो अव्यक्त बीमार हो जाते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

COVID - 19 राजस्थान - सारक है

झूठ विटामिन-सी के भरपूर सेवन से कोलेरा संक्रमण को ठीक करने में मदद मिल सकती है।

सच विटामिन-सी के नियमित सेवन से प्रतिरक्षा बढ़ती है। लेकिन, इसके अव्यक्त सेवन की सलाह नहीं दी जाती है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

COVID - 19 राजस्थान - सारक है

झूठ सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलेरा का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है।

सच ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

COVID - 19 राजस्थान - सारक है

झूठ कुम्पायन अर्थात् 5 दिनों तक है।

सच "कुम्पायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कुम्पायन अर्थात् 1-14 दिनों तक है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

COVID - 19 राजस्थान - सारक है

झूठ एक चीनी चिक्किस्क के मुताबिक कोलेरा वायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।

सच ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
खुद बचें दूसरों को भी बचाएं

**COVID-19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।**

#राजस्थान - सारक है

राजस्थान - सारक है

संकेत क्या घर के सदस्यों को भी आवास में दूरी रखनी है?

जवाब हाँ। निम्न संकेतों को ध्यान से देखें।
आज और 12-14 वर्ष के अंतर। उम्र के लोगों, नवजात शिशुओं और वृद्धों को ध्यान से देखें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

राजस्थान - सारक है

संकेत COVID-19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।

जवाब COVID-19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

राजस्थान - सारक है

संकेत लोगों से दूरी बनाए रखें। कोरोना से दूरी बनाए रखें।

जवाब COVID-19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

राजस्थान - सारक है

संकेत विश्वास में रहें। निवास में रहें।

जवाब कोरोना वायरस - घर में रहें सुरक्षित रहें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

राजस्थान - सारक है

संकेत कोरोना वायरस के संकेत दिखाने दिनों में दिखते हैं।

जवाब सामान्य तौर पर 5 से 7 दिनों में इसके संकेत दिखते हैं। यदि 14 दिनों तक का भी समय लगेगा है। इसी कारण 14 दिनों अवधि में घर में रहें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी दूर रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बचें।
4. निम्न प्रकार से काम करें और अपने घरे में भी रहें।
कोविड-19 को रोकने के लिए www.mohfw.gov.in पर सारक करें।

**दिल दिया है जा भी देंगे
एक यकन तोरे लिए**

आशा कार्यकर्ता मारू बनाए
संकट काल में आशा अपने स्वा. योगदान दिया?

**'ASHA' workers make masks
at home amid Covid battle**



**आइये, हम सब भी किसी ना किसी
रूप में अपना योगदान दें,
इस महामारी से निपटने में**

COVID-19 कोलोन से सुप्रीम और जीरो कोलोन से जीरो सुप्रीम रहे
आशा अकादमी के प्रोग्राम/कार्यक्रमों में आप हमारे साथ

श्री. राजेश कुमार यादव
आशा अकादमी के अध्यक्ष

घर पर दूरदर्शन हाइड साफ़ी, भोजन वही डिस्पोज़ल।
हम घर से बाहर निलचरत जा वें, इसकी मेहनत बेवकाल॥



Copyright मीडिया के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये चित्रण मीडिया नीतियों के अनुसार बनाया गया है।
ये चित्रण एक अनुसंधान को प्रभावित करे और आसानी से ग्राहकों से चित्रण करने सफल हो सके।

अनुसंधान करें और +91-2267834641 फ़ोन करें और +91-44-22226624, 22226600

अधिक जानकारी के लिए rajswasthya.nic.in पर संपर्क करें

राजस्वस्थता सार्वजनिक

दूसरी को मदद भी सावधानी और सतर्कता से करनी है



NO CROWD

NO SOCIAL GATHERING

NO GROUP KITCHEN

COVID-19 को रोकने के लिये हमें अपने अपने को सुरक्षित और दूसरों से सम्बन्धित जो भी हो पर सावधानी बरतनी होगी। जो, जल्दी-जल्दी से फिर करने वाले व्यक्ति को।

संजय शर्मा सिर: +91 9226186441, रवि शर्मा सिर: +91 9414432262, 222222

अधिक जानकारी के लिए rajswasthya.nic.in पर सम्पर्क करें

टी.एस.एस.एल.सी. सार्वजनिक

नालट संधियों से बचें, सही तथ्य जाने

आप मसाले को भी कीटाणुनाशक करने की जरूरत है (विशेषतः काली मिर्च)।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।

मसाले

आप मसाले को भी कीटाणुनाशक करने की जरूरत है (विशेषतः काली मिर्च)।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।

मसाले

आप मसाले को भी कीटाणुनाशक करने की जरूरत है (विशेषतः काली मिर्च)।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।

मसाले

आप मसाले को भी कीटाणुनाशक करने की जरूरत है (विशेषतः काली मिर्च)।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।
 काली मिर्च को 100°C पर 15 मिनट के लिए उबालें।

जागरूक बने, औरों को भी बनायें

COVID-19 महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ली गई हैं और लाखों लोग बीमार हुए हैं।
 COVID-19 महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ली गई हैं और लाखों लोग बीमार हुए हैं।
 COVID-19 महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ली गई हैं और लाखों लोग बीमार हुए हैं।

अजिंठा जलवायु और जल rajawasthaonline.in पर संपर्क करें

ई-मार्केटिंग, मार्केट 3

[illegible]

कोरोना वायरस से बचाव के चार सबसे महत्वपूर्ण उपाय

इन बातों को जानकर ही आप कोरोना की दवा बन सकते हैं

1. हाथों में सैबुन से अच्छी तरह धोएं।
2. अगर हाथ धोना पड़ता है तो कम से कम 20 सेकंड तक धोएं- 20 सेकंड ही हैं।
3. अगर हाथ धोकर फेस टिश्यू या रगई नहीं आए, तब भी हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
4. हाथों से किसी भी सतह को छूने से बचें।
5. हाथों से किसी भी व्यक्ति को छूने से बचें।

Covid19 को रोकने से दुनिया ही नहीं दुखती बल्कि हमें खुशियां मिलें

ऑनलाइन आवाजों की मदद से www.aavazforyou.in पर आवाजें दें।

आवाजें भेजें और - 91-82800-22222 पर कॉल करें। 91-82800-22222 पर कॉल करें।

#आवजेंआवाजें बतलें हैं

सतर्ज रहने की जरूरत है
सुपर हीरो बनिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें
कोरोना वाइरस को फैलने से रोकें



छात्रों के बीच सतर्ज रहने की जरूरत है और अपने घर में भी सुपरहीरो की भाँति हैं। हमारे पास है आप
 और आप ही हमें कोरोना की चपेट से बचा सकते हैं।
 मोबाईल नंबर - 98100 12345 67890 | वेब साइट - www.mca.gov.in
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर समयमः जाएं
#राजस्थान_सतर्ज

कोरोना के संक्रमण से बचार्न

